

August 01, 2020

<p>To,</p> <p>Manager Dept. of Corporate Services Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai - 400001 Fax: 022- 22723121/2037/2039/2041</p> <p>corp.relations@bseindia.com</p> <p>Scrip Code : 532906</p>	<p>To,</p> <p>Manager Dept. of Corporate Services The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai - 400051 Fax: 022-26598237/38,26598347/48</p> <p>cmlist@nse.co.in</p> <p>Scrip Code : MAANALU</p>
---	---

Subject: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015


Dear Sir/Ma'am

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of the newspaper publication of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020.

Please find enclosed the Newspaper Advertisement published on August 01, 2020 in compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in English Daily Newspaper ("Financial Express") and Hindi Daily Newspaper ("Jansatta").

You are requested to kindly take this information on record and disseminate the same.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Maan Aluminium Limited


Priti Jain
Director
DIN: 01007557



📍 Office: Building No.4/5,
1st Floor, Asaf Ali Road,
New Delhi-02. Tel.: 011-40081800

📍 Works: Plot No. 67 & 75,
Sector-I, Pithampur-454775,
Dist. Dhar, M.P., INDIA

☎ Phone: 91-7292-472500
✉ E-mail: info@maanaluminium.in
🌐 Website: www.maanaluminium.com

CIN: L30007DL2003PLC214485

- 2 The above results have been reviewed by Audit Committee and were approved at the Board Meeting of the Directors of the company held on 31.07.2020.
- 3 The company has its operations of manufacturing of fresh, frozen foods and vegetables and there is no segment to be reported as per IND AS-108.
- 4 Previous figures have been regrouped, reclassified wherever considered necessary to conform to the current period presentation.

for TARAI FOODS LIMITED

Sd/-
Dr. R.P. SINGH
WHOLE TIME DIRECTOR
DIN: 03645402
CHIEF FINANCIAL OFFICER
PAN NO. AXRPS387K

Place: Rudrapur
Date: 31.07.2020

NOT
.The
Marc
Req
Marc
www
2. Th

Place
Date

MAAN ALUMINIUM LIMITED

Registered office: 4/5, 1st Floor, Asaf Ali Road, New Delhi-110002

CIN: L30007DL2003PLC214485, Phone: 011-40081800,

Website: www.maanaluminium.com, Email: secretarial@maanaluminium.in

**Extract of statement of financial results for the quarter ended June 30, 2020**

(Rs. in lakhs except EPS)

Sr. No	Particulars	Quarter ended			Year Ended	
		June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations gross	4,993	9,851	13,591	52,419	
2	Net Profit before exceptional items and tax	215	84	348	915	
3	Net Profit for the period before tax	215	84	348	915	
4	Net Profit for the period after tax	161	83	228	755	
5	Total comprehensive income for the period	161	89	227	753	
6	Equity share capital	676	676	676	676	
7	Earnings Per Share of Rs. 10/- each					
	Basic & Diluted EPS	2.38	1.23	3.37	11.17	

Notes:-

- The above financial results for the quarter ended June 30, 2020 have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on July 31, 2020.
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.maanaluminium.com

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Ravinder Nath Jain)

Chairman and Managing Director

Place: New Delhi

Date: July 31, 2020

DIN : 00801000

Tel: +
STATEMESl. Particula
No.

1 Total inco

2 Net Profit
(Before T
Extra ord3 Net Profit
before tax
or Extra o4 Net Profit
after tax
or Extrae5 Total Com
the period
(loss) for
and Other
(after tax)

6 Equity Sha

7 Reserves
(Reserve) a
Balance S8 Earnings P
each) (for
discontin
Basic :
Diluted:Note : The abo
Regulation 33 o
ended finan
the company'sPlace: Chand
Date: 31st Jul**SPACE INCUBATRICES TECHNOLOGIES LIMITED**

REGD. OFF. : PAWAN PURI, MURADNAGAR, DISTT. GHAZIABAD (U.P.)

CIN : L17100UP2016PLC084473, Phone : 01232- 261288

Web : www.spaceincubatrices.com, email: spaceincubatrices@gmail.com

**STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/
YEAR ENDED 31.03.2020**

(₹ In Lakh)

S. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		3 months ended	Year ended	3 months ended	3 months ended	Year ended	3 months ended
		31.03.2020	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2019
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from operations	16.51	76.99	14.29	17.54	78.02	14.29
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Exceptional Items and tax)	0.13	28.36	-7.51	-0.12	28.11	-197.89
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	0.13	28.36	-7.51	-0.12	28.11	-197.89
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after tax and Exceptional items)	-7.17	20.93	-15.97	-7.55	20.68	-206.35
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	-7.17	20.93	-15.97	-7.55	20.68	-206.35
6.	Paid-up equity share capital (Face value of ₹10/-)	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92
7.	Other Equity	-	3002.05	-	-	-106.73	-
8.	Earning Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	(a) Basic	-0.02	0.06	-0.05	-0.02	0.06	-0.60
	(b) Diluted	-0.02	0.06	-0.05	-0.02	0.06	-0.60

NOTES:-

Total Income
Net Profit/(Los
and/or Extrao
Net Profit/(Los
and/or Extrao
Net Profit/(Los
Total Compre
Profit/(Loss) fo
comprehensive
Paid-up equity
Reserves (exc
the Balance S
Earnings per s
(of Rs. 10/- ea
Diluted earnin
(of Rs. 10/- ea

Notes:

The above is a

हो चुके हैं। जबकि बिहार में इंतजाम के नाम पर क्या है किसी से छुपा नहीं है। फिर भी हम जान जोखिम में डाल संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये अपने पदस्थापना से खुश नहीं हैं। इनमें कईयों ने योगदान न देने का मन बना लिया है। इनका कहना है कि यह कोई प्रशासनिक पद तो है नहीं। जो गृह जिलों में तैनाती नहीं हो सकती। सरकार इस पर विचार करे।

कोरोना मरीजों के नाम उजागर करने का निर्देश देने से इनकार

मुंबई, 31 जुलाई (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कोविड-19 मरीजों के नाम उजागर करने का निर्देश देने से संबंधित आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार का परामर्श ऐसे मरीजों के नाम उजागर करने से रोकता है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल ने उस जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें दो व्यक्तियों ने अनुरोध किया था कि कोविड-19 मरीजों के नाम उजागर किए जाएं ताकि उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में आसानी हो और अन्य लोगों को संक्रमण की चपेट में आने से बचाया जा सके।

जनहित याचिका में दावा किया गया कि वर्तमान स्थिति (कोविड-19 संकट) के मद्देनजर निजता का मौलिक अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण जीवन का मौलिक अधिकार और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, जहां सार्वजनिक हित और नैतिकता महत्वपूर्ण है। सोलापुर के किसान महेश गाडेकर और विधि की छात्रा वैष्णवी घोलावे ने यह याचिका दायर की थी।

बैंड-बाजे के साथ थाना प्रभारी की विदाई पर विवाद

इंदौर, 31 जुलाई (भाषा)।

देश में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में एक थाना प्रभारी के तबादले के बाद उनकी विदाई के दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आने से विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का आरोप है कि इस मौके पर थाने में महामारी से बचाव के दिशा-

Company have carried out a statutory audit of the aforesaid financial results.

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly & yearly Financial Results filed with BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2020 are available at the Stock Exchange Website at www.bseindia.com and on the Company's Website at www.apexfinancials.in.

Date: 30.07.2020
Place: New Delhi

By the Order of the Board
For Apex Capital and Finance Limited

(Shekhar Singh)
Managing Director
DIN-00039567

मान एल्युमिनियम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 4/5, फ़र्स्ट फ्लोर, अस्फ अली रोड, नई दिल्ली-110002

CIN: L30007DL2003PLC214485, फ़ोन: 011-40081800,

वेबसाइट: www.maanaluminium.com; ईमेल: secretarial@maanaluminium.in



30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्घरण

(रु. लाखों में ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		30 जून 2020	31 मार्च 2020	30 जून 2019	31 मार्च 2020
		(अंकित)	(अंकित)	(अंकित)	(अंकित)
1	प्रचालन सकल से कुल आय	4,993	9,851	13,591	52,419
2	अपवादात्मक मदों और कर से पहले शुद्ध लाभ	215	84	348	915
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ	215	84	348	915
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ	161	83	228	755
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	161	89	227	753
6	इविटी शेयर पूंजी	676	676	676	676
7	प्रत्येक रु. 10/- से प्रति शेयर आय				
	बेसिक व डायल्यूटेड ईपीएस	2.38	1.23	3.37	11.17

नोट्स:

- 31 जुलाई, 2020 को आयोजित बैठक में 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- सेबी (सुधियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमवली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई उपरोक्त वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है। सम्पूर्ण वित्तीय परिणाम www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.maanaluminium.com पर उपलब्ध है।

कृते और बोर्ड की ओर से
हरता/-

(रविन्द्र नाथ जैन)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN : 00801000

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 31 जुलाई, 2020

तराई फूड्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 13, हनुमान रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, टेली. नं.: 011-41018839

CIN No.: L15142DL1990PLC039291, वेबसाइट: www.tarafoods.com, ईमेल: grvneces.tfl@gmail.com

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अंकेषित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2020 अंकित	समाप्त पूर्व तिमाही 31.12.2019 अंकित	समाप्त तत्स्थानीय तिमाही 31.03.2019 अंकित	समाप्त वर्ष 31.3.2020 अंकित	समाप्त वर्ष 31.3.2019 अंकित
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	69.1	91.8	37.9	299.5	239.3
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-14.9	10.7	-19.3	-6.3	-13.3
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-16.5	10.7	2854.9	-8.8	2860.9
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	-16.5	10.7	2854.9	-8.8	2860.9
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	-15.8	10.7	2855.8	-8.0	2860.9
6.	प्रदत्त इविटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/-)	1536.41	1536.41	1536.41	1536.41	1536.41
7.	अवधि (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई अवधि एवं लाभ तथा हानि खाते में डेबिट बैलेंस को छोड़कर)	448.85	448.85	448.80	448.85	448.80
8.	मूल एवं तरल ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं) (कर, विशिष्ट एवं असाधारण मदों के बाद)					
	मूल:	-0.11	0.07	18.59	-0.06	18.63
	तरल:	-0.11	0.07	18.59	-0.06	18.63

टिप्पणी:

- कम्पनी के वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार तैयार किया गया है।
- उपरोक्त परिणामों को ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 31.7.2020 को आयोजित कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किये गये।